

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 279]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 8, 1965/कार्तिक 17, 1887

No. 279]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 8, 1965/KARTIKA 17, 1887

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION, INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th November 1965

S.O. 3488.—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby makes the following amendment in its notification No: 434/7/61, dated the 25th November, 1961, namely:—

In the table appended to the said notification, for the existing entry in column 2 against S. No. 14, the following entry shall be substituted:—

“Collector of Dharmapuri”.

[No. 434/MD/62.]

By Order,

PRAKASH NARAIN, Secy.

(1075)

